

06/08/2026 अखिल भारतीय

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक : 06 अगस्त, 2026

एनएसई कोड : LIC1

बीएसई कोड : 543526

प्रदर्शन की प्रमुख उपलब्धियां : अप्रैल-जून, वित्त वर्ष 2026-27

- कर पश्चात लाभ (PAT) में 22.81% की वृद्धि होकर ₹13,492 करोड़ हो गया।
- नए व्यवसाय का मूल्य (VNB) 61.32% बढ़कर ₹3,136 करोड़ हो गया।
- वीएनबी मार्जिन (शुद्ध) में 750 आधार अंकों (बीपीएस) की वृद्धि होकर 22.9% हो गया।
- कुल प्रीमियम आय 6.75% बढ़कर ₹1,27,250 करोड़ हो गई।
- व्यक्तिगत नए व्यवसाय की प्रीमियम आय 14.48% बढ़कर ₹14,351 करोड़ हो गई।
- कुल वार्षिकीकृत प्रीमियम समतुल्य (APE) 8.22% की वृद्धि के साथ ₹13,692 करोड़ रहा।
- व्यक्तिगत व्यवसाय के अंतर्गत नॉन-पार एपीई 14.24% बढ़कर ₹2,447 करोड़ हो गया।
- समूह व्यवसाय एपीई 10.20% बढ़कर ₹6,160 करोड़ हो गया।
- व्यक्तिगत व्यवसाय के अंतर्गत नॉन-पार एपीई की हिस्सेदारी पहली तिमाही, वित्त वर्ष 2026-27 में 32.49% रही, जबकि पहली तिमाही, वित्त वर्ष 2025-26 में यह 30.34% थी।
- सॉल्वेंसी अनुपात 2.17 से बढ़कर 2.42 हो गया।
- प्रबंधनाधीन परिसंपत्तियां (AUM) 4.10% बढ़कर ₹59,39,384 करोड़ हो गई।
- कुल व्यय अनुपात 10.47% से बढ़कर 10.63% हो गया, अर्थात 16 आधार अंकों (बीपीएस) की वृद्धि दर्ज की गई।

मुंबई, 06 अगस्त, 2026 : भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के निदेशक मंडल ने 30 जून, 2026 को समाप्त तिमाही के लिए स्टैंडअलोन एवं समेकित वित्तीय परिणामों को अनुमोदित एवं स्वीकृत कर लिया है। निगम के स्टैंडअलोन प्रदर्शन की प्रमुख उपलब्धियां निम्नलिखित हैं।

30 जून, 2026 को समाप्त तिमाही के दौरान निगम का **कर पश्चात लाभ (PAT)** ₹13,492 करोड़ रहा, जबकि 30 जून, 2025 को समाप्त तिमाही में यह ₹10,986 करोड़ था। इस प्रकार इसमें **22.81 प्रतिशत** की वृद्धि दर्ज की गई।

प्रथम वर्ष प्रीमियम आय (FYPI) (आईआरडीएआई के अनुसार) के आधार पर बाजार हिस्सेदारी की दृष्टि से एलआईसी भारतीय जीवन बीमा उद्योग में अपनी अग्रणी स्थिति बनाए हुए है तथा इसकी कुल बाजार हिस्सेदारी **60.10 प्रतिशत** रही। 30 जून, 2026 को समाप्त तिमाही के दौरान व्यक्तिगत व्यवसाय में एलआईसी की बाजार हिस्सेदारी **38.89 प्रतिशत** तथा समूह व्यवसाय में **70.90 प्रतिशत** रही।

30 जून, 2026 को समाप्त तिमाही के दौरान **कुल प्रीमियम आय** ₹1,27,250 करोड़ रही, जबकि 30 जून, 2025 को समाप्त तिमाही में यह ₹1,19,200 करोड़ थी। इस प्रकार इसमें **6.75 प्रतिशत** की वृद्धि दर्ज की गई। 30 जून, 2026 को समाप्त तिमाही के दौरान **व्यक्तिगत व्यवसाय की कुल प्रीमियम आय** ₹75,416 करोड़ रही, जो पिछले वर्ष की समान अवधि के ₹71,474 करोड़ की तुलना में **5.52 प्रतिशत** अधिक है। इसी प्रकार, 30 जून, 2026 को समाप्त तिमाही के दौरान **समूह व्यवसाय की कुल प्रीमियम आय** ₹51,834 करोड़ रही, जबकि 30

जून, 2025 को समाप्त तिमाही में यह ₹47,726 करोड़ थी। इस प्रकार इसमें **8.61 प्रतिशत** की वृद्धि दर्ज की गई।

30 जून, 2026 को समाप्त तिमाही के दौरान व्यक्तिगत व्यवसाय में **31,02,281 पॉलिसियों** का विक्रय किया गया, जबकि 30 जून, 2025 को समाप्त तिमाही में **30,39,709 पॉलिसियों** का विक्रय किया गया था। इस प्रकार पॉलिसियों की संख्या में **2.06 प्रतिशत** की वृद्धि दर्ज की गई।

वार्षिकीकृत प्रीमियम समतुल्य (Annualized Premium Equivalent-APE) के आधार पर 30 जून, 2026 को समाप्त तिमाही के दौरान कुल प्रीमियम **₹13,692 करोड़** रहा। इसमें से **55.01 प्रतिशत (₹7,532 करोड़)** व्यक्तिगत व्यवसाय तथा **44.99 प्रतिशत (₹6,160 करोड़)** समूह व्यवसाय से प्राप्त हुआ। व्यक्तिगत व्यवसाय में एपीई के आधार पर **पार (Par) उत्पादों** की हिस्सेदारी **67.51 प्रतिशत (₹5,085 करोड़)** रही, जबकि शेष **32.49 प्रतिशत (₹2,447 करोड़)** का योगदान **नॉन-पार (Non-Par) उत्पादों** का रहा। नॉन-पार एपीई 30 जून, 2025 को समाप्त तिमाही के **₹2,142 करोड़** से बढ़कर 30 जून, 2026 को समाप्त तिमाही में **₹2,447 करोड़** हो गया, जिससे इसमें **14.24 प्रतिशत** की वृद्धि दर्ज की गई। परिणामस्वरूप, एपीई के आधार पर व्यक्तिगत व्यवसाय में नॉन-पार उत्पादों की हिस्सेदारी, जो 30 जून, 2025 को समाप्त तिमाही में **30.34 प्रतिशत** थी, बढ़कर 30 जून, 2026 को समाप्त तिमाही में **32.49 प्रतिशत** हो गई।

30 जून, 2026 को समाप्त तिमाही के दौरान **नए व्यवसाय का मूल्य (Value of New Business-VNB)** ₹3,136 करोड़ रहा, जबकि 30 जून, 2025 को समाप्त तिमाही में यह ₹1,944 करोड़ था। इस प्रकार इसमें **61.32 प्रतिशत** की वृद्धि दर्ज की गई। 30 जून, 2026 को समाप्त तिमाही के दौरान **शुद्ध वीएनबी मार्जिन** 30 जून, 2025 को समाप्त तिमाही के **15.4 प्रतिशत** की तुलना में **750 आधार अंकों** की वृद्धि के साथ **22.9 प्रतिशत** हो गया।

30 जून, 2026 की स्थिति के अनुसार **सॉल्वेंसी अनुपात** बढ़कर **2.42** हो गया, जबकि 30 जून, 2025 को यह **2.17** था।

30 जून, 2026 को समाप्त तिमाही के दौरान **प्रीमियम आधार पर 13वें माह एवं 61वें माह की स्थायित्व अनुपात (पर्सिस्टेंसी) अनुपात** क्रमशः **75.33 प्रतिशत** तथा **61.12 प्रतिशत** रहे। इसके अनुरूप 30 जून, 2025 को समाप्त तिमाही में ये अनुपात क्रमशः **75.63 प्रतिशत** तथा **63.85 प्रतिशत** थे।

इसी प्रकार, 30 जून, 2026 को समाप्त तिमाही के दौरान **पॉलिसियों की संख्या के आधार पर 13वें माह एवं 61वें माह की स्थायित्व अनुपात (पर्सिस्टेंसी) अनुपात** क्रमशः **66.45 प्रतिशत** तथा **48.74 प्रतिशत** रहे, जबकि 30 जून, 2025 को समाप्त अवधि में ये क्रमशः **64.35 प्रतिशत** तथा **51.12 प्रतिशत** थे।

30 जून, 2026 की स्थिति के अनुसार **प्रबंधनाधीन परिसंपत्तियां (Assets Under Management-AUM)** बढ़कर **₹59,39,384 करोड़** हो गईं, जबकि 30 जून, 2025 को यह **₹57,05,341 करोड़** थीं। इस प्रकार वर्ष-दर-वर्ष आधार पर **4.10 प्रतिशत** की वृद्धि दर्ज की गई।

30 जून, 2026 को समाप्त तिमाही के दौरान **कुल व्यय अनुपात** **10.63 प्रतिशत** रहा, जबकि 30 जून, 2025 को समाप्त तिमाही में यह **10.47 प्रतिशत** था। इस प्रकार इसमें **16 आधार अंकों** की वृद्धि दर्ज की गई।

30 जून, 2026 को समाप्त तिमाही के दौरान **पॉलिसीधारकों की निधि पर निवेश प्रतिफल (अवास्तविक लाभों को छोड़कर)** **8.28 प्रतिशत** रहा, जबकि 30 जून, 2025 को समाप्त तिमाही में यह **8.45 प्रतिशत** था।

एलआईसी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं प्रबंध निदेशक, श्री आर. दुरैस्वामि ने कहा :

“हमें प्रसन्नता है कि जीवन बीमा उद्योग में प्रतिस्पर्धा लगातार बढ़ने के बावजूद हमने चालू वित्तीय वर्ष की प्रथम तिमाही के दौरान व्यक्तिगत तथा समूह, दोनों ही व्यवसायों में अपनी अग्रणी स्थिति बनाए रखी है। प्रथम वर्ष

प्रीमियम आय (FYPI) के आधार पर वित्त वर्ष 2026-27 की प्रथम तिमाही में हमारी कुल बाजार हिस्सेदारी 60.10 प्रतिशत रही, जो हमारी बाजार हिस्सेदारी संबंधी रणनीति के अनुरूप है। हमें इससे भी अधिक प्रसन्नता इस बात की है कि हमारे नए व्यवसाय के मूल्य (VNB) में 61 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई है तथा हमारा वीएनबी मार्जिन इस वर्ष 7.5 प्रतिशत बढ़कर 22.90 प्रतिशत हो गया है। यह हमारे उत्पाद विविधीकरण एवं वितरण रणनीति का प्रत्यक्ष परिणाम है। मैं वैश्विक स्तर पर व्याप्त अनिश्चितताओं के इस दौर में हमारे सभी ग्राहकों, वितरकों तथा कर्मचारियों का उनके अटूट विश्वास एवं समर्पित प्रयासों के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। हाल ही में भारत सरकार ने ऑफर फॉर सेल (OFS) के माध्यम से अतिरिक्त 6.5 प्रतिशत शेयरों का विनिवेश किया है, जिसे बाजार से अत्यंत सकारात्मक स्वीकृति मिली है। मैं ओएफएस के माध्यम से जुड़े सभी नए शेयरधारकों का एलआईसी परिवार में हार्दिक स्वागत करता हूँ तथा उन वर्तमान शेयरधारकों का भी धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने ओएफएस में भाग लेकर एलआईसी में अपना निरंतर विश्वास व्यक्त किया है। इस वर्ष 1 सितम्बर, 2026 को एलआईसी अपनी स्थापना के 70 वर्ष पूर्ण करेगी। हमें विश्वास है कि अभिनव उत्पादों के शुभारंभ तथा अन्य ग्राहकोन्मुखी प्रयासों के माध्यम से हम अपने ग्राहकों को प्रसन्नता के अनेक नए अवसर प्रदान करते रहेंगे।”

प्रमुख परिचालन एवं वित्तीय संकेतक

क्र. सं.	विवरण	30 जून, 2025 को समाप्त तिमाही (₹ करोड़ में)	30 जून, 2026 को समाप्त तिमाही (₹ करोड़ में)	वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि (%)
1	कर पश्चात लाभ (PAT)	10,986	13,492	22.81%
2	नव व्यवसाय प्रीमियम आय (व्यक्तिगत व्यवसाय)	12,536	14,351	14.48%
3	नवीकरण प्रीमियम (व्यक्तिगत व्यवसाय)	58,938	61,065	3.61%
4	कुल प्रीमियम (व्यक्तिगत व्यवसाय)	71,474	75,416	5.52%
5	समूह व्यवसाय की कुल प्रीमियम आय	47,726	51,834	8.61%
6	कुल प्रीमियम आय	1,19,200	1,27,250	6.75%
7	बेची गई पॉलिसियों की संख्या (व्यक्तिगत व्यवसाय)	30,39,709	31,02,281	2.06%
8	नव व्यवसाय का मूल्य (शुद्ध) (VNB)	1,944	3,136	61.32%
9	प्रबंधनाधीन परिसंपत्तियां (AUM)	57,05,341	59,39,384	4.10%
10	वीएनबी मार्जिन (शुद्ध)	15.4%	22.9%	750 आधार अंकों की वृद्धि
11	कुल व्यय अनुपात	10.47%	10.63%	16 आधार अंकों की वृद्धि
12	सॉल्वेंसी अनुपात	2.17	2.42	25 आधार अंकों की वृद्धि
13	13 माह / 61 माह स्थायित्व अनुपात (पर्सिस्टेंसी) (प्रीमियम के आधार पर)	75.63% / 63.85%	75.33% / 61.12%	
14	13 माह / 61 माह स्थायित्व अनुपात (पर्सिस्टेंसी) (पॉलिसियों की संख्या के आधार पर)	64.35% / 51.12%	66.45% / 48.74%	
15	व्यक्तिगत व्यवसाय एपीई (वार्षिकीकृत प्रीमियम समतुल्य)	7,061	7,532	6.67%
16	समूह व्यवसाय एपीई (वार्षिकीकृत प्रीमियम समतुल्य)	5,590	6,160	10.20%

17	कुल एपीई (व्यक्तिगत + समूह)*	12,652	13,692	8.22%
18	व्यक्तिगत व्यवसाय के एपीई का उत्पाद मिश्रण (%) (पार / नॉन-पार, लिंकड सहित)	69.66% / 30.34%	67.51% / 32.49%	

** नोट : राउंडिंग ऑफ के कारण आंकड़ों का योग कुल से भिन्न हो सकता है।*

टिप्पणी : वित्तीय परिणामों से संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए कृपया 30 जून, 2026 को समाप्त तिमाही के स्टैंडअलोन वित्तीय परिणामों तथा उनके साथ संलग्न टिप्पणियों का अवलोकन करें, जिन्हें स्टॉक एक्सचेंजों तथा निगम की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है।

मुंबई, दिनांक : 06 अगस्त, 2026

अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें : **कार्यकारी निदेशक (निगमित सम्प्रेषण)**
भारतीय जीवन बीमा निगम, केंद्रीय कार्यालय, मुंबई, ई-मेल : ed_cc@licindia.com

वेबसाइट पर विजिट करें : www.licindia.in

हमें विश्वास है कि इस प्रेस विज्ञप्ति में निहित जानकारी आपके पाठकों के लिए उपयोगी सिद्ध होगी। यद्यपि हम इसके यथाशीघ्र प्रकाशन के लिए आपके आभारी होंगे, तथापि हम यह भी स्वीकार करते हैं कि इसके प्रकाशन का निर्णय पूर्णतः आपके विवेक पर निर्भर करता है।